

म.प्र. शासन पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा प्रदेश के अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक वर्ग के युवक-युवतियों को विभिन्न रोजगारोन्मुखी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए संचालित प्रशिक्षण योजना अंतर्गत प्रवेश हेतु आवेदन पत्र

पंजीयन क्रमांक

प्रशिक्षण केंद्र का नाम एवं पता : रेनेसां एजुकेशन सोसाइटी, 45, अनुराग नगर, इंदौर।

प्रशिक्षण के विषय : IBPS/SSC/Railway

अवधि : 8 माह

1 आवेदक का नाम

2 पिता का नाम

3 माता का नाम

4 जन्म तिथि

D	D	M	M	Y	Y	Y	Y
---	---	---	---	---	---	---	---

5 मोबाइल न.

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

6 लिंग

7 आयु

--	--	--	--

 वर्ष

8 जाति

9 वर्ग

10 शैक्षणिक योग्यता

11 आधार कार्ड न.

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

12 परिवार की वार्षिक आय

Rs.

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

13 आवेदक के बैंक खाते का विवरण

खाता क्रमांक

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

बैंक का नाम

शाखा

आई. एफ. एस. सी. कोड

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

14 पूर्ण पता

15 गृह जिला

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

मैं घोषणा करता / करती हूँ कि आवेदन में दी गई उपरोक्त समस्त जानकारियां सत्य हैं।

आवेदक के हस्ताक्षर

आवेदन के साथ संलग्न स्वयं प्रमाणित छायाप्रतियाँ -

1. मूल निवासी प्रमाण पत्र

2. अ. पि. व. जाति प्रमाण पत्र / अल्पसंख्यक घोषणा पत्र

3. आय प्रमाण पत्र अथवा घोषणा पत्र

4. हाई स्कूल एवं अन्य शैक्षणिक योग्यता संबंधी अंकसूची

5. आधार कार्ड

6. समय आई. डी.

7. राशन कार्ड

8. बैंक पासबुक की छायाप्रति

आवेदक के हस्ताक्षर

\_\_\_\_\_

आवेदक का नाम

\_\_\_\_\_

पता

\_\_\_\_\_

प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित करने वाली संस्था का नाम - रेनेसां एजुकेशन सोसाइटी

## "घोषणा पत्र "

में (प्रशिक्षणार्थी का नाम)\_\_\_\_\_ पिता \_\_\_\_\_

निवास \_\_\_\_\_ जिला \_\_\_\_\_ जाति\_\_\_\_\_

अन्य पिछड़ा वर्ग / अल्पसंख्यक वर्ग , अंतर्गत म.प्र. का मूल निवासी हूँ। मैं संस्था रेनेसां एजुकेशन सोसाइटी, इंदौर द्वारा वर्ष 2018-19 में संचालित केंद्र 45, अनुराग नगर, इंदौर पर विषय IBPS /SSC/Railways का प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहता हूँ। मेरे द्वारा शासन की किसी अन्य योजना में उक्त विषय का निशुल्क प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया गया है एवं न ही इस योजना अंतर्गत किसी अन्य प्रशिक्षण केंद्र पर प्रशिक्षण हेतु मेरे द्वारा आवेदन किया गया है। यदि प्रशिक्षण हेतु मेरा चयन होता है तो मैं नियमित उपस्थित हो कर एवं पूर्ण निष्ठा से प्रशिक्षण प्राप्त करूँगा। प्रशिक्षण उपरांत संबंधित प्रतियोगी परीक्षा में पूर्ण तैयारी के साथ भाग लूँगा। यदि मेरे द्वारा ऐसा नहीं किया जाता है तो मेरे प्रशिक्षण पर व्यय हुई राशि मुझसे वसूल की जा सकेगी।

स्थान : इंदौर

दिनांक :

हस्ताक्षर : \_\_\_\_\_

प्रशिक्षार्थी का नाम : \_\_\_\_\_

पता: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_